JAY BHARAT MARUTI LIMITED Corporate Office : Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgach-122 003 (Hr.) 'T : +91 124 4674500, 4674550 F : +91 124 4674599 W : www.jbmgroup.com



Ref. No.: JBML/SE/Q2/22-23

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai-400001 Dated: 03.08.2022

The National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai- 400051

Scrip Code: 520066

### NSE SYMBOL: JAYBARMARU

Sub: Submission of Newspapers Advertisements under Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to the provision of Regulation 47 read with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations 2015, we are enclosing herewith, copies of the newspaper advertisements published in Business Standard (English) in Delhi edition and Business Standard (Hindi) in Delhi edition dated 03<sup>rd</sup> August, 2022 for the publication of unaudited financial results of the Company (Standalone & Consolidated) for the quarter ended 30<sup>th</sup> June, 2022 approved at the meeting of Board of Directors held on 02<sup>nd</sup> August, 2022.

Submitted for your information and records please.

Thanking you,

For Jay Bharat Maruti Limited

(Ravi Arora) Company Secretary Encl. as above

Works :

Plant I: Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T. +91 124 4587200, F: +91 124 4887300 Plant II: Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T. +91 124 4935300, F: +91 124 4935332 Plant III: Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 9999190423, 9899079952 Plant IV: Plot No. 322, Sector - 3, Phase-II, GWC, Bawai - 123 501 (Haryana) T +91 8221004201, 8221004203 Regd. Office : 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T : +91 11 26427104-06, F : +91 11 26427100 CIN : L29130DL1987PLC027342

JBM & Our milestones are touchstones						इंडियन वैंक रिवास Bank A इसारावाद AllAMAMA BRANCH : STRESSED ASSETS MANAGEMENT (SAM) LUDHIANA, 165-INDUSTRIAL AREA A, CHEEMA CHOWK, LUDHIANA PUBLIC NOTICE ON WILFUL DEFAULTERS The people of Sector-27, Noida especially, our honorable ca
	Regd. Office: 601, Hemkunt Chambers, 89, Fax 011-26427100 Website : www					It is Hereby notified to the public at large that below mentioned suspended of the bank are hereby informed that our Sector-27, Noida
	STATEMENT OF UNAUDITED RESU					Directors and Guarantors of Borrower Company M/S. MDLR MOTORS PVT. LTD. have failed and wilfully neglected to pay the amount which are Palace, Sector 27, Noida, Uttar Pradesh–201301 is getting
					(Rs. in Lakhs)	liable towards repayments of their above loan account to Indian Bank, SAM Branch, Ludhiana. Hence we declare the following persons as
SI. No.	Particulars	30/06/2022	Quarter Ended 30/06/2021	Quarter Ended 30/06/2022		SAM Branch, Ludhiana. Hence we declare the following persons as "Wilful Defaulters" in terms of Bank's/RBI's extant rules and regulation, complying with due process prescribed therein: Details of person declared as "Wilful Defaulters": Betails of person declared as "Wilful Defaulters": Branch, Ludhiana. Hence we declare the following persons as "Wilful Defaulters" in terms of Bank's/RBI's extant rules and regulation, complying with due process prescribed therein: Details of person declared as "Wilful Defaulters": Branch, Ludhiana. Hence we declare the following persons as better accessibility and services w.e.f. 27-08-2022. We look forward to welcome you at the new premises with every facilities being offered by us. Shivalik Small Finance B
1.	Total Income from operations	Unau 55.448.46	41,164.57		<b>idited</b> 41.164.57	Sector-27, Noida
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	1.142.78	437.25	1,167.25	448.73	Phone - +91-9818
	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	1,142.78	437.25	1,167.25	448.73	
	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	771.51	296.06	789.27	304.66	ि भारतीय स्टेट बैंक State Bank of India Branch : Srimadhopur (142
5.	Total Comprehensive Income for the period [ Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after Tax)]	928.28	466.55	945.78	475.02	Sh. Vishnu Tantia Ms. Sushila Goyal Smt Radha Devi 1. Shri. Vishnu Tantia S/o Bhagirath, Partner/Gurrantor of (M/S. MDLR MOTORS PVT. LTD.), R/o 723/5, Gali No-1,Patel Nagar, Gurugram, Haryana-122022.
6.	Equity share capital	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2,165.00	2. Ms. Sushila Goyal D/o Gopal Goyal, Partner/Guarantor of (M/S. MDLR 2002 and in Exercise of Powers Conferred Under Section 13 (2) Read With Rule 3 of the section 2002 and in Exercise of Powers Conferred Under Section 13 (2) Read With Rule 3 of the section 2002 and the section 200
	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	45,170.38	43,884.59	45,262.16	43,909.76	MOTORS PVT. LTD.), R/o 436/16,Civil Lines, Gurugram, Haryana-122001 3. Smt Radha Devi Alis Munni Devi W/o Sh Murlidhar, (Guarantor/ Mortgagor of (M/s. MDLR Motors Pvt. Ltd.), R/o Gali Khazanchaian, Sirsa,
	Earning per Share (of Rs. 5/- each) (not annualised) (For continuing and discontinued operations)-					Haryana-125055 Present Address : Tara Baba Ki Kutia, Rania Road, Sirsa-125055 Loan Amount : Rs. 580.05 Lacs amount due as on 01.08.2022 The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the bor
	a) Basic	1.78	0.68	1.82	0.70	public in general that the undersigned has taken possession of the property described in exercise of powers conferred on him/her under sub section (4) of the section 13 of th
Note	b) Diluted	1.78	0.68	1.82	0.70	Hence in the interest of the public it is informed and cautioned that no with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on this the 29/07/2022.
a) TI E) R( of	s: ne above is an extract of the detailed form cchanges under Regulation 33 of the gulations, 2015. The full format of the Qu the Stock Exchange(s), www.nseindia.c ww.jbmgroup.com	SEBI (Listing arterly/Annual F	Obligations an inancial Result seindia.com, a	d Disclosure s are available nd on the Com	Requirements) on the websites Ipany's website	person shall deal with any of the properties of the above named suspended Partner/Guarantor and Mortgagor as a huge Sum is recoverable from the aforesaid debtors.       The borrower/ Guarantor/Mortgagors in particular and the public in general is hereby to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge and the public in general is hereby to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge and the public in general is hereby to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge and expenses the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Arge available, to redeem the secured assets.         Disceril provide the property and any dealings with the property will be subject to the charge and expenses till date of payment. The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Arge available, to redeem the secured assets.
Dia	<b>A</b>			Sd/-	RUTI LIMITED	All that part and parcel or the property situated at <b>Patta No. 56, Book No. 237 Date 20</b> Mahroli, Tehsil: Srimadhopur, Distt.: Sikar (Raj.) In the Name of Sh. Gajendra 5 Mahaveer Singh (Total area 79.30 Sq. Yards.) Property Bounded : East: Aam Rasta
	e :- Gurugram d :- 2™ August, 2022		CHAIRM	S. K. ARY	A Ing Director	Land of Gopal JI Pareek, North: House of anop singh & Self, South: House of santosh Ka Place: Maharoli, Sikar Date: 29.07.2022 Authorised Officer, State

## JM FINANCIAL LIMITED

Corporate Identity Number: L67120MH1986PLC038784

Registered Office: 7th Floor, Cnergy, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai 400025. Tel. No.: +91 22 6630 3030 • Fax: +91 22 6630 3223 • Website: www.jmfl.com

	FOR THE QUARTER ENDE			Rup	pees in Crore
			d	Year Ended	
Sr. No.	Particulars	30.06.2022 Unaudited	31.03.2022 (Refer Note 6)	30.06.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited
1	Income				
(a)	Revenue from Operations				
	(i) Interest Income	463.40	422.46	432.65	1,850.71
	(ii) Fees and Commission Income	164.33	185.66	210.65	816.96
	(iii) Brokerage Income	69.12	86.70	81.78	330.54
	(iv) Net gain on fair value changes	65.79	82.03	236.07	588.59
	(v) Net gain on derecognition of financial instruments carried at amortised cost	-	2.46	-	0.05
	(vi) Other Operating Income	28.61	30.33	24.66	120.31
		791.25	809.64	985.81	3,707.16
(b)	Other Income	14.47	29.58	6.74	56.12
	Total Income	805.72	839.22	992.55	3,763.28
2	Expenses				
(a)	Finance costs	260.74	249.95	260.99	1,081.73
(b)	Net loss on derecognition of financial instruments carried at amortised cost	0.04	-	-	-
(c)	Impairment on financial instruments	32.27	50.43	108.63	348.36
(d)	Employee benefits expense	147.76	97.44	162.25	547.8
(e)	Depreciation and amortization expense	9.56	9.64	9.44	37.78
(f)	Other Expenses	96.18	110.17	90.84	399.56
	Total expenses	546.55	517.63	632.15	2,415.24
3	Profit before tax (1-2)	259.17	321.59	360.40	1,348.04
4	Tax expenses				
(a)	Current tax	41.16	83.45	129.35	415.46
(b)	Deferred tax	19.75	8.58	(43.42)	(60.24
(c)	Tax adjustment of earlier years (net)	_	0.45	-	0.45
	Total tax expenses	60.91	92.48	85.93	355.67
5	Net Profit for the period / year (3-4)	198.26	229.11	274.47	992.37
6	Add :- Share in profit of associate	0.12	(0.71)	0.31	0.02
7	Net Profit after tax and Share in profit of associate (5+6)	198.38	228.40	274.78	992.39
8	Other Comprehensive Income (OCI)				
	<ul> <li>(i) Items that will be reclassified to profit or loss</li> <li>Exchange differences on translation of foreign operations</li> </ul>	4.92	2.45	1.33	3.66
	<ul> <li>(ii) Items that will not be reclassified to profit or loss</li> <li>Remeasurement of defined benefit obligations</li> </ul>	0.21	1.51	0.66	0.8
	- Share in Other Comprehensive Income of Associate	-	#	-	#
	- Income tax on the above	(0.05)	(0.37)	(0.17)	(0.20
	Total Other Comprehensive Income	5.08	3.59	1.82	4.27
9	Total Comprehensive Income (7+8)	203.46	231.99	276.60	996.66
10	Net Profit attributable to (7):		1-00		
	Owners of the company	170.01	178.79	203.14	773.16
	Non-controlling interests	28.37	49.61	71.64	219.23
11	Other Comprehensive Income attributable to (8):	5.00	0.54	1.00	1.0
	Owners of the company	5.09	3.54	1.80	4.34
	Non-controlling interests	(0.01)	0.05	0.02	(0.07
12	Total Comprehensive Income attributable to (9):		(00.00		
	Owners of the company	175.10	182.33	204.94	777.50
	Non-controlling interests	28.36	49.66	71.66	219.16
13	Paid up equity share capital (Face value Re.1/- per share)	95.44	95.41	95.35	95.41
14	Other Equity (excluding revaluation reserves)				7,538.36
15	Earning Per Share (EPS)				
	Basic EPS (in Rs.) (Not annualised)	1.78	1.87	2.13	8.11

# JM FINANCIAL

	SEGMENTWISE DETAILS ON	I CONSOL	IDATED B	ASIS				
	FOR THE QUARTER EN	ided Jun	E 30, 2022	Ru	pees in Crore			
			Quarter Ended		Year Ended			
Sr. No.	Particulars	30.06.2022 Unaudited	31.03.2022 (Refer Note 6)	30.06.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited			
	Segment Revenue							
А	Investment Bank	308.31	284.18	315.87	1,272.56			
В	Mortgage Lending	299.83	297.87	300.16	1,191.04			
С	Alternative & Distressed Credit	64.66	86.20	225.31	522.09			
D	Asset Management, Wealth Management & Securities Business (Platform AWS)	130.03	152.55	142.75	662.27			
Е	Others	36.03	52.52	35.61	243.28			
	Total Segment Revenue	838.86	873.32	1,019.70	3,891.24			
	Less: Inter - segmental revenue	(33.14)	(34.10)	(27.15)	(127.96)			
	Total Revenue	805.72	839.22	992.55	3,763.28			
	Segment Results (Profit before tax)							
А	Investment Bank	134.19	130.92	114.96	472.81			
В	Mortgage Lending	78.53	111.57	71.41	375.70			
с	Alternative & Distressed Credit	3.23	22.77	143.35	236.10			
D	Asset Management, Wealth Management & Securities Business (Platform AWS)	7.23	19.42	12.45	128.38			
Е	Others	35.99	36.91	18.23	135.05			
	Total Results	259.17	321.59	360.40	1,348.04			
1	Segment Assets*							
А	Investment Bank	6,299.39	7,149.61	6,105.13	7,149.61			
В	Mortgage Lending	9,525.58	9,647.32	8,984.27	9,647.32			
С	Alternative & Distressed Credit	3,817.06	3,828.29	3,971.90	3,828.29			
D	Asset Management, Wealth Management & Securities Business (Platform AWS)	2,589.95	3,375.76	3,114.33	3,375.76			
Е	Others	1,955.84	1,761.08	1,610.87	1,761.08			
1	Total Segment Assets	24,187.82	25,762.06	23,786.50	25,762.06			
1	Segment Liabilities			1				
А	Investment Bank	3,861.72	4,650.89	3,816.48	4,650.89			
в	Mortgage Lending	5,497.97	5,677.72	5,143.14	5,677.72			
С	Alternative & Distressed Credit	1,959.31	1,973.34	2,211.24	1,973.34			
D	Asset Management, Wealth Management & Securities Business (Platform AWS)	1,819.64	2,608.68	2,387.69	2,608.68			
Е	Others	273.01	278.23	329.82	278.23			
	Total Segment Liabilities	13,411.65	15,188.86	13,888.37	15,188.86			
	Segment Capital Employed*							
А	Investment Bank	2,437.67	2,498.72	2,288.65	2,498.72			
В	Mortgage Lending	4,027.61	3,969.60	3,841.13	3,969.60			
с	Alternative & Distressed Credit	1,857.75	1,854.95	1,760.66	1,854.95			
D	Asset Management, Wealth Management & Securities Business (Platform AWS)	770.31	767.08	726.64	767.08			
Е	Others	1,682.83	1,482.85	1,281.05	1,482.85			
	Total Capital Employed	10,776.17	10,573.20	9,898.13	10,573.20			
	erment Assets and Capital Employed presented are net of Goodwill on consolidation amounting to Rs 52.44 Crore							

# Denotes amount below ₹ 50.000/-

### Notes:

- 1. The unaudited standalone and consolidated financial results for the first quarter ended June 30, 2022 have been reviewed by the Audit Committee, and on its recommendation, have been approved by the Board of Directors at its meeting held on August 2, 2022 in accordance with Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended (the "Listing Regulations"). The said results have been subjected to limited review by the Statutory Auditors of the Company, who have issued an unmodified report thereon.
- 2. The said standalone and consolidated financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles laid down in the Indian Accounting Standard 34 "Interim Financial Reporting" (Ind AS 34) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other accounting principles generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the Listing Regulations.
- 3. During the first quarter ended June 30, 2022, the Allotment Committee of the Board has allotted an aggregate of 3,23,952 equity shares of the face value of Re. 1/- each to the eligible employees upon exercise of stock options by them. Consequent upon the said allotment of shares, the total paid up equity share capital of the Company has increased to Rs. 95,43,79,485/-(Rupees Ninety five crore forty three lakh seventy nine thousand four hundred and eighty five) representing 95,43,79,485 equity shares of the face value of Re. 1/- each.
- On a consolidated basis, the Group has four reportable segments, namely, (i) Investment Bank (ii) Mortgage Lending (iii) Alternative & Distressed Credit and (iv) Asset Management, Wealth Management & Securities Business (Platform AWS). The revenue from others include property rental income, income from the proceeds (pending deployment) of Qualified Institutions Placement issue, and income from surplus funds. The reportable segments are in line with the segment wise information as presented to the Chief Operating Decision Maker (CODM). The Company and the Group do not have any naterial operations outside India and hence disclosure of geographic segments is not required.

\* Segment Assets and Capital Employed presented are net of Goodwill on consolidation amounting to Rs. 52.44 Crore.

- 5. India is emerging from the Covid-19 virus, a global pandemic that resulted in significant volatility in the global and Indian financial markets and corresponding slowdown in the economic activities. The extent to which the pandemic will continue to impact the future results of the Group will depend on future developments, which are uncertain including, among other things, any new information concerning the severity of the Covid-19 pandemic and any action to contain its spread or mitigate its impact whether government-mandated or elected by the Group. The Group will continue to closely monitor any material changes to future economic conditions.
- 6. The figures for the quarter ended March 31, 2022 in the above financial results are the balancing figures between the audited figures for the full financial year and the year to date unaudited figures published up to the nine months ended December 31, 2021.
- 7. The Consolidated and Standalone financial results for the first quarter ended June 30, 2022 are being uploaded on the Company's website viz., www.jmfl.com and the websites of BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited viz., www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively.

K	ey st	and	-alo	ne t	financia	lin	format	tion	is	given	be	low:			
---	-------	-----	------	------	----------	-----	--------	------	----	-------	----	------	--	--	--

#### Rupees in Crore

Particulars		Year Ended			
	30.06.2022 Unaudited	31.03.2022 Refer note 6	30.06.2021 Unaudited	31.03.2022 Audited	
Total Income	114.78	102.45	162.81	619.63	
Profit before tax	59.53	71.65	97.62	415.90	
Profit after tax	46.65	53.63	75.07	327.78	
Total Comprehensive Income	46.67	53.80	75.12	327.86	

### For and on behalf of the Board of Directors

Place : Mumbai Date : August 2, 2022

Adi Patel Joint Managing Director (DIN: 02307863)

Atul Mehra Joint Managing Director (DIN: 00095542)





## संक्षेप में

## चिप किल्लत से मारुति को नुकसान

मारुति सुजूकी को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में चिप की कमी के कारण 51,000 वाहनों के उत्पादन का नुकसान हुआ। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। कार बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनी ने 2022-23 की जून तिमाही के दौरान 4,67,931 वाहनों की बिक्री की। कंपनी ने माना कि सेमीकंडक्टर किल्लत के कारण उत्पादन संबंधी योजना बनाने में चनौती दिख रही है। मारुति के मुख्य वित्तीय अधिकारी अजय सेठ ने विश्लेषकों से बातचीत में कहा, 'इलेक्ट्रॉनिक्स कलपुर्जों की कमी अब भी हमारे उत्पादन की मात्रा को सीमित कर रही है। इसकी वजह से चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में हमें 51,000 वाहनों के उत्पादन का नुकसान उठाना पड़ा।' भाषा

## गोदरेज प्रॉपर्टीज के एमडी का इस्तीफा

रियल एस्टेट कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज के प्रबंध निदेशक एवं मख्य कार्याधिकारी मोहित मल्होत्रा ने कंपनी से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि गौरव पांडेय अगले साल एक जनवरी से मल्होत्रा के स्थान पर यह पद संभालेंगे। उनका इस्तीफा 31 दिसंबर. 2022 से प्रभावी होगा। भाषा

# दूरसंचार कंपनियों द्वारा दर वृद्धि का अनुमान

अनीश फडणीस मुंबई, 2 अगस्त

श्लेषकों को 5जी स्पेक्टम की 1.5 लाख करोड़ रुपये की नीलामी के बाद दर वृद्धि के अन्य दौर की संभावना दिख रही है। 5जी स्पेक्टम की नीलामी सोमवार को संपन्न हो गई।

क्रिसिल रेटिंग्स के वरिष्ठ निदेशक मनीश गुप्ता ने कहा, 'स्पेक्टम खरीद में बड़े निवेश को देखते हुए हमें विश्वास है कि दूरसंचार कंपनियां 5जी सेवाओं के लिए अलग अलग कीमत वसूलेंगी। वास्तव में, 5जी सेवाओं का चयन 4जी दरों के मुकाबले महंगा होगा। 5जी के व्यापक इस्तेमाल को सुनि श्चित करने के प्रयास में, दूरसंचार कंपनियां 4जी सेवाओं के लिए भी कीमतें बढा सकती हैं, भले ही दिसंबर 2019 और नवंबर 2021 में दो बार दर वृद्धि की जा चुकी है। हमें चालू वित्त वर्ष की दुसरी छमाही में 4जी सेवाओं के लिए दर वद्धि

किए जाने की संभावना है।' दरसंचार कंपनियों ने विभिन्न बैंडों में 1.5 लाख करोड़ रुपये में 51,236 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम



## दरें बढा सकती हैं कंपनियां

विश्लेषकों का कहना है कि 5जी के बढते इस्तेमाल के प्रयास में 5जी सेवाओं के लिए भी दरों में इजाफा किया जा सकता है

5जी नीलामी में भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने 43.084 करोड रुपये और 18.799 करोड रुपये के स्पेक्टम खरीदे थे

सबसे आगे रही और उसने 88.078 करोड रुपये का स्पेक्टम

इंडियन बैंक

खरीदा।रिलायंस जियो नीलामियों में वोडाफोन आइडिया ने 43,084 करोड़ रुपये और 18,799 करोड़ रुपये के स्पेक्टम खरीदे थे। नोमरा खरीदा। भारती एयरटेल और ग्लोबल मार्केट्स रिसर्च का दर वृद्धि या 1.5जीबी प्रतिदिन 4जी प्लान के मुकाबले 30 प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। सरकार ने 21 सितंबर के बाद

कुल ग्राहक आधार पर 4 प्रतिशत

सभी खरीदे गए स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज (एसयूसी) समाप्त कर दिया है और नोमुरा का अनुमान है कि बड़ी एसयूसी बचत के साथ कंपनियों के लिए शुद्ध सालाना खर्च करीब 7,500 करोड रुपये होगा।

नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में कहा है 'ऐतिहासिक तौर पर, भारतीय दूरसंचार कंपनियों ने 4जी प्लान के लिए ज्यादा पैसा वसूलने से परहेज किया है। हमारी नजर में ऑफर पर संभावित ज्यादा स्पीड और महंगे ग्राहकों ( 15,000 रुपये से अधिक कीमत के स्मार्टफोन ) से शुरुआती वृद्धि के साथ, दूरसंचार कंपनियों के लिए 5जी के संदर्भ में अधिक (4जी के मुकाबले) शुल्क वसूलने की संभावना है। 5जी दर वाले प्लान पर अल्पावधि में नजर रखे जाने की जरूरत होगी और 4जी के मकाबले दुरसंचार कंपनियों के लिए 5जी प्रीमियम एआरपीयू के संदर्भ में अंतर आ सकता है।'

गोल्डमैन सैक्स इक्विटी रिसर्च के अनुमान है कि मुताबिक, 5जी से वैश्विक दरसंचार सेवा दुरसंचार कंपनियों के पुंजीगत खर्च प्रदाताओं को में कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई स्पेक्टम खरीद है और भारत में ऐसे ही ट्रेंड देखने के बाद अपने को मिलेंगे।


## वोडा-आइडिया की नजर 5जी में प्रीमियम ग्राहकों पर

देव चटर्जी मुंबई, 2 अगस्त

हाल तक दिवालिया होने की कगार पर खड़ी वोडाफोन आइडिया ने 17 दुरसंचार सर्किल में 18.800 करोड़ रुपये के 5जी स्पेक्टम खरीदे हैं। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि यह उसके मौजूदा ग्राहक आधार को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त नहीं होगा।

विश्लेषकों का कहना है कि दुरसंचार उद्योग द्विध्रवीय स्थिति में जा रहा है जहां जियो और भारती एयरटेल अग्रणी कंपनियां होंगी जबकि वोडाफोन आइडिया और सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ग्राहकों के लिए प्रतिस्पर्धा में पिछड़ सकती हैं।

कोटक इंस्टीट्यूशनल सिक्योरिटीज के एक विश्लेषक ने कहा, वोडाफोन आइडिया की स्थिति आगे भी प्रभावित हो सकती है जब प्रतिस्पर्धी कंपनियां उच्च क्षमता एवं बेहतर कवरेज के साथ 5जी सेवाओं की पेशकश करेंगी।' वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों की कुल



### अनीश फडणीस मुंबई, 2 अगस्त

अदाणी समूह ने आज कहा कि वह अपने कारोबार को डिजिटल तरीके से एकीकृत करेगा। समूह ने कहा कि इसके तहत डेटा सेंटरों को आपस में जोड़ने, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े औद्योगिक क्लाउड कारोबार को खड़ा करने और अपने 40 करोड़ ग्राहकों के बीच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक सुपर ऐप विकसित करने की योजना है। अदाणी समुह ने सोमवार को संपन्न हुई

5जी स्पेक्ट्रम नीलामी के तहत 400 मेगाहटूर्ज स्पेक्ट्रम हासिल करने के बाद औद्योगिक 5जी क्षेत्र में उतरने की घोषणा की। समूह ने मिलीमीटर वेव (26 गीगाहट्रज ) बैंड में 212 करोड़ रुपये का स्पेक्ट्रम हासिल किया है।

कंपनी को 5जी स्पेक्ट्रम से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद मिलेगी जिससे अदाणी समुह अपने प्रमुख बुनियादी ढांचा. प्राथमिक उद्योग और बी2सी कारोबार

रफ्तार दे सकेगा।

नए अधिग्रहीत 5G स्पेक्टम से एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। इससे अदानी समूह अपने मुख्य बुनियादी ढांचे, प्राथमिक उद्योग और बी2सी व्यापार पोर्टफोलियो के डिजिटलीकरण की रफ्तार बढा सकेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल सक्षमता को रफ्तार देने से परिसंपत्ति पर रिटर्न की दर में दीर्घकालिक सधार होगा। उन्होंने कहा, '400 मेगाहटर्ज स्पेक्टम हासिल करना डिजिटल बुनियादी पोर्टफोलियो के एकीकरण की ओर समूह द्वारा उठाया गया पहला कदम है। इसमें डेटा सेंटर, टेरेस्ट्रियल फाइबर एवं समुद्री केबल, औद्योगिक क्लाउड, एआई नवाचार प्रयोगशालाएं, साइबर सुरक्षा और सुपर ऐप शामिल हैं।'

अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी ने एक बयान में कहा, 'औद्योगिक 5जी क्षेत्र में अदाणी समूह के दस्तक देने से हमारी पोर्टफोलियो केंपनियों को नई एड-ऑन सेवाओं की पेशकश करने में मदद मिलेगी। यह हमारे द्वारा बनाए जा रहे अन्य सभी डिजिटल श्रेणियों को भुनाने में मदद करेगा। '

परिशिष्ट IV देखें नियम 8(1) कब्जा सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

### जब कि

इंडियाबुल्स रूरल फायनान्स प्रायवेट लिमिटेड (CIN:U74140MH1993PTC074596) प्राधिकत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनांशियल असेट्स एंड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऐक्ट, 2002 के अंतर्गत और नियम 3 के साथ धारा 13(12) के साथ सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के साथ पढ़ते हुए प्राप्त अधिकारों का उपयोग करके कर्जदार आशीष राज C/o. बाल फार्मा लिमिटेड, स्नेहा राज C/o. इनसाइट कस्टमर कॉल सॉल्यूशंस लिमिटेड और गीता को 13.01.2022 की सूचना में वर्णन के अनुसार कर्ज खाता नं. HRHLVAS00482288 की राशि रू. 7,03,272.54 (रूपये सात लाख तीन हजार वो सौ बहत्तर और चौवन पैसे मात्र) और 29.12.2021 के अनुसार उस पर ब्याज उक्त सूचना की प्राप्ती की तारीख से स्पष्ट 60 दिनों के भीतर चुकता करने का आवाहन करते हुए अभियाचना सूचना जारी की थी ।

धनराशि चुकता करने में कर्जवारों के असफल रहने पर एतदद्वारा कर्जवार और सर्व सामान्य जनता को सूचना दी जाती है कि, अधोहस्ताक्षरी ने उक्त कानून की धारा 13 की उप-धारा 4 के साथ उक्त कानून के नियम 8 के तहत सिक्योरिटी इंटरेस्ट (एन्फोर्समेंट) रूल्स, 2002 के तहत प्राप्त अधिकारों का कार्यान्वयन करके 29.07.2022 को संपत्ति पर सांकेतिक आषिपत्य कर लिया है ।

विशेषतः कर्जदारों और सामान्यतः जनता को एतददारा संपत्ति के साथ सौदा नहीं करने के लिए सावधा किया जाता है और संपत्ति के साथ कोई भी सौदा राशि रू.7,03,272.54 (रूपये सात लाख तीन हजार दो सौ बहत्तर और चौवन पैसे मात्र) 29.12.2021 के अनुसार और उस पर ब्याज के साथ इंडियाबुल्स रूरल फायनान्म पायतेट लिफिटेब के आधीन होगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के अन्तर्गत संपत्ति / संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय की ओर आमंत्रित किया जाता है ।

### अचल संपत्ति का विवरण

आबादी के ज्वाला नगर में शाहदरा उर्फ गाँव चंद्रावली के क्षेत्र में स्थित, दूसरी मंजिल पर निर्मित केवल सीर्लिग स्तर तक विस्तार छत /टेरेस के अधिकार बिना संपत्ति बियरिंग नंबर प्लॉट नंबर 721/ए और पुराना नंबर 52/2-पी पर निर्मित माप क्षेत्र 58 जौरम गाईम यानि AB AQ जौरम मीटर्म (आयाम 12 2/A' )



🚓 Indian Ban



1. श्री विष्णु टांटिया पुत्र भागीरथ, (मैसर्स एमडीएलआर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) के **भागीदार/गारेंटर**, निवासी ७२३/५, गली सं–१, पटेल नगर, गुरुग्राम, हरियाणा–१२२०२२

सुश्री सुशीला गोयल पुत्री गोपाल गोयल, (मैसर्स एमडीएलआर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) के भागीदार/गारंटर, निवासी 436/16, सिविल लाइंस, गुरुग्राम, हरियाणा–122001

 श्रीमती राधा देवी उर्फ मुन्नी देवी पत्नी श्री मुरलीधर, (मैसर्स एमडीएलआर मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड) के गारंटर/बंधककर्ता निवासी गली खजानचैन, सिरसा, हरियाणा–125055 वर्तमान पता : तारा बाबा की कोठी, रानिया रोड, सिरसा–125055

## जनवरी तक 9 शहरों में जियो की 5जी सेवा

## पृष्ठ १ का शेष

पोर्टफोलियो को के डिजिटलीकरण को

उदाहरण के लिए नोकिया और सैमसंग पहले ही 5जी रेडियो का विनिर्माण कर रही हैं, इसलिए ये भारत में 5जी रेडियो की मांग आसानी से परी कर सकती हैं। दोनों कंपनियों ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के लिए समझौते किए हैं। एरिक्सन भारत में 5जी की मांग परी करने के लिए अपना उत्पादन बढा सकती है।

वेंडरों का कहना है कि भारती एयरटेल और वोडाफोन इंडिया दुरसंचार कंपनियों का कहना है कि रुआती चरण में उन शहरों पर जोर जहां पहले ही भारी तादाद में

केंपनियां 5जी टावर तैयार कर रही हैं। पावर बैकअप और बैकहॉल के लिए बड़े बैंडविडथ की जरूरत होगी। सरकार ने नीलामी से ठीक पहले दरसंचार कंपनियों को टावर से टावर के बीच बैक हॉल के लिए ई-बैंड में 250-250 मेगाहर्ट्ज के दो कैरियर आवंटित करने को मंजूरी दी है। इससे बड़े बैंडविड्थ के साथ आने वाली 5जी की एक प्रमुख समस्या दुर हो जाएगी।

5जी शुरू करने की तैयारी पिछले

कुछ समय से चल रही है। दूरसंचार

	सी पर निर्मित माप क्षेत्र 58 जौरस यार्डस् थानि 48.49 जौरस मीटर्स (आयाम 12 3/4' X39'), खसरा नंबर 6 में से जिसका प्लिथ कवर्ड क्षेत्र 45 जौरस मीटर्स के साथ जमिन अंतर्गत एक स्कूटर पार्किंग की ज	
$ \begin{array}{c} \mathbf{r}_{i} \mathbf{r}$	आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य और अविभाज्य स्वतंत्र स्वामित्व अधिकारों के साथ, इल्लाका शाहव दिल्ली-110032 और निम्ननुसार परिबध्द है:-	स्य, इसलिए जनता के हित में यह सूचित और चेतावनी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति उपयुक्त नामित के परिवर्ध सरिय प्रेय प
<ul> <li>A star war war i war i war war war war war war war war war war</li></ul>		विदला माह की बगवा दिमोटांगे है। कानी का कहना है कि उसके के माथ जोटेगी। इस माग करीब 7 फीमटी दिमोटांगे है।
		ाषिभाकः 03.08.2022 राषिभाकः 13.08.2022
		📸 🛛 👘 👘 👘 मिणावर्य के का सपाट करने वला सबसे बड़ा केपनिया
$ \begin{array}{c} \hline \hline$	स्थान ः दिल्ली इंडियाबुल्स करल फायनान्स प्रायवेट लिमिले	
$ \begin{array}{c} \label{eq:product} \end{tabular} \\ \begin{tabular}{lllllllllllllllllllllllllllllllllll$		- JBMEV
$ \begin{array}{c} \label{eq:product} \begin{tabular}{llll} \label{eq:product} \l$	इंडियन बैंक 🛛 🚓 Indian Bank	Our milestones are touchstones
Alter and Applement of Apple	🛆 इलाहाबाद ALLAHABAD	1 एनेकिन कार्यात्यः 601 देयकन त्रैर्वियः 601 देयकन त्रैर्वियः 901 स्थार प्रहे दिन्दी-110010 फोन नः 011-2622704
$\frac{1}{1 + c_{1}^{2} + c_{1}^{2} + c_{2}^{2} + c_{2}^{$	इलाहाबाद शाखा : स्ट्रेस्ड असेट मनेजमेट (एमएएम) लुधियाना, १६५–औद्योगिक क्षेत्र ए. चीमा चौक, लुधियाना	🕴 👖 🕅 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏 🖏
NameN	विलफुल डिफॉल्टर्स पर सार्वजनिक सूचना	
nummer         Provent         Marker 22:         Marker 21:         Markr 21:         Marker 21:         Marker 21:	यह बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित उधारकर्ता कंपनी मैस जिल्लोफो मोटर्म के निलंबित गाउंटर और निटेशकों विफल रहे हैं और जानबहाकर जम राशि	
$ \frac{4}{10} / \frac{4}{10} \frac{4}{10} \frac{4}{10} \frac{1}{10} \frac{1}{10$	भुगतान करने में विफल रहे हैं जो <b>इंडिया बैंक, एमएएम शाखा, लुधियाना</b> को अपने उपयु	भग किया प्रकृति किया प्रतिहर्ण के लिए को हो 5 जो सवाओं को शह र्युक्त किया प्रतिहरण <u>30/06/2022 30/06/2022 30/06/2021 के प्राहर</u> स्वाय हो गांव साम हो गांव की शह
<sup>11</sup> drager Ballerdi, 'a werd dilfter alba al farmer: <sup>11</sup> drager Ballerdi, 'a werd dilfter alba al farmer farmer and a farmer a	ऋण खाते के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं। इसलिए हम निम्नलिखित व्यक्तियों के अपनीआई के जैन्द्रन निगएँ और विनियाद के जंबर्ग में ''विचारन विष्ठॅं ज्याति'	को समाप्त तिमाही क
<sup>11</sup> drager Ballerdi, 'a werd dilfter alba al farmer: <sup>11</sup> drager Ballerdi, 'a werd dilfter alba al farmer farmer and a farmer a	में घोषित करते हैं, जो इसमें निर्धारित उचित प्रक्रिया का पालन करते हैं:	ा. प्रचलनों से कुल आय <u>55,448.46 41,164.57 55,448.46 41,164.57</u>
<ul> <li>A weth state ware of a state a state ware of a state of a st</li></ul>	''विलफुल डिफॉल्टर्स'' के रूप में घोषित व्यक्ति का विवरण :	<ol> <li>अवधि के लिये निवल लाभ / (हानि) (कर,</li> <li>विशिष्ट और / अशवा असाधारण महों</li> </ol>
<ul> <li>A weth state ware of a state a state ware of a state of a st</li></ul>		
<ul> <li>A weth state ware of a state a state ware of a state of a st</li></ul>		
Airch after       ai thige       ait after	ALL DE BELLET	
Airch after       ai thige       ait after		4. अवधि के लिये कर पश्चात निवल लाम/
Airch after       ai thige       ait after		ि (हाने) (विशिष्ट और/अधवा असाधारण महों के उप्रश्नंत) 771 51 296 06 789 27 304 66 C
Image: sparse	WONCTET DA	
पता       पता <th< td=""><td>श्रीमती सरिता श्री गोबिंद श्री मंदीप सिंह श्री साकेत</td><td>र्था। भूत करत हुए अवधि के लिए किर</td></th<>	श्रीमती सरिता श्री गोबिंद श्री मंदीप सिंह श्री साकेत	र्था। भूत करत हुए अवधि के लिए किर
मोमती सरित विय प्रता गांध सरित वय प्रता गांध सरसल, हरियाणा       मोमती सरित वय प्रता गांध सरित वय प्रता गांध सरसल, हरियाणा       1: बारहत कर कारकितां के बलाणा       2:165.00       3:162       3		🔟 🛛 🕅 (कर उपरांत) 928.28 466.55 945.78 475.02 🛛 🗄 मत्तर २ आफून के मांश मांश किकी में भी कटा मधार टर्ज उन्होंने कडा 'सड पिठली टो निमाडि
1) mite grant graven. green graven. graven. graven. green graven. green graven. g		مام، [] [6. [والمعلود] بعلوم المركب الم
भी गोब कुमोर पुत्र स्व. पुरसाप र, प्रवास मागवार), निवासी माटस के मागावार), निवासी माटस के मागावार, जालक कि कि मुं सुरे मांग के करा में 1.2, प्रतिशात वा सांग के के मागता के कि मागल के माग के करा मार के करा में 1.5 प्रतिशात के सुरं के के के मागता के कि मागल के मागल के मागावार), निवास मायस कि मागावार, निवास मायस के मागता के कि मागल के मागल के मागावार, निवास मायस के मागावार, निवास मायस के मागता के मारम के मारम के मागता के मारम के मागावार, निवासी माटस के मागावार, निवास माय मारम के मागत के मागत के मायस के मायस के मागल के माय के करा मा राज के माग के के मां 1.5 प्रतिशक का का मायस के माय के मागत के मायस का माय के मागत के माय के करा में 1.5 प्रतिश क मायस का माय के मागत के माय के करा में 1.5 प्रतिश क मायस का माय के मागत के मायस का माय के माय के माय के करा मा राज के मागत के मायस के माय के माय कर कि किय के माय मायस के मायस के मायस के माय के माय के के माय के माय के		
श मंदीप रिष्ठ धालीवाल पुत्र सुखजीत सिंह धालीवाल, (चिनोशो मोटर्स के भगीवार), निवासी मंत्राल एनकलंव, मोडाली, (चिनोशो मोटर्स के भगीवार), निवासी मंत्राल एनकलंव, मोडाली, (चिनोशो मोटर्स के भगीवार), निवासी कर्जन कर्ड (प्रविशत) पंजाब       8. प्रति शेषर आय, प्रत्येक रू 56/ (वार्षिकृत मंडी) (जरी और स्यागत, प्रवासनां के दिये)- क) शेसिक       1.78       0.68       1.82       0.70         भी साकेत कंडोई पुत्र मोती लाल, (चिनोशो मोटर्स के भगीवार), निवासी वार्ड सं. 12, हिसारिय धर्मवाला संगारिय बचुनामाय के पार, राजस्थान       1.78       0.68       1.82       0.70         भी साकेत कंडोई पुत्र मोती लाल, (चिनोशो मोटर्स के भगीवार), निवासी वार्ड सं. 12, हिसारिय धर्मवाला संगारिय बचुनामाय के पार, राजस्थान       1.78       0.68       1.82       0.70         भा कित कंडोई पुत्र मोती लाल, (चिनोशो मोटर्स के भगीवार), निवासी वार्ड सं. 12, हिसारिय धर्मवाला संगारिय बचुनामाय के पार राजस्व कि काई वार्ष कर कर अंग संगाई के बार्ष वार्ष कर कर वार्ष कर कर अंग मंज कर कर वार्ष कर कर अंग मंज कर वार्ण के विराय संगान कर कर कर कर कर कर कर वार्ष के कर वार्ष कर कर कर कर कर कर कर वार्ष कर कर अंग मंज कर कर कर वार्ष कर	/श्री गोबिंद कुमार पुत्र स्व. मुरलोधर, (चित्तोशो मोटर्स के भागीदार), निवासी गली खजानचे सिरसा. हरियाणा	बन, 🛛 春 अलावा) ँ ँ ँ ँ ँ ँ ४ मिर 170.38 43,884.59 45,262.16 43,909.76 🗄 रिपोर्ट में कहा है कि अप्रैल-जन तिमाही सपरमार्केट ने लगातार बिक्री वृद्धि उम्मीद बढने का संकेत है। साथ ही ख
मकान सं. 57बी, कंसल एनंकलेंव, मोहाली, साहिबजायों अजीत सिंह नगर/मोहाली/अंजीतगढ़, पंजाब मेहा संप्रकार के बिये) को सिकंक कं वो द्वार के की युद्ध के पंजाब भी साकंक कं बोई पुत्र मोती लाल, (चितोशों मोटसं के भागीवर), निवासी वार्ड सं. 12, हिसारिया को शेरिक के 1.78 0.68 1.82 0.70 भी साकंक कं बोड़ल्यी देवा भी साकंक कं बोड पुत्र मांगरिया हनुमानगढ़ के पास, राजस्थान को शरेर के भागीवर), निवासी वार्ड सं. 12, हिसारिया को शरेर के प्रकार के प्रित सं प्रकार मांगरिया हनुमानगढ़ के पास, राजस्थान का प्रकार के बीव प्रकार के प्रकार कर कर का युद्ध के के स्वार प्रकार मांगरिया हनुमानगढ़ के पास, राजस्थान का प्रकार के प्रकार कर कर कर तरा के स्वार प्रकार कर कर कर वा विष्ठ कर का युद्ध के के संवार प्रकार कर कर तरा के संवार कर ता के संवार कर ता के संवार प्रकार कर कर तरा के संवार प्रकार कर कर तरा के संवार प्रकार कर तरा के संवार प्रकार कर कर तरा के संवार प्रकार कर तरा के संवार प्रकार कर कर तरा के संवार प्रकार कर तरा के संवार प्रकार कर तरा के संवार प्रकार कर तरा का प्रकार कर तरा का प्रकार कर तरा का प्रकार कर तरा का प्रकार कर तर तरा का प्रकार कर वा वा तरा का प्रकार कर वा वा तरा का प्रकार कर तरा		📕 🛛 8. प्रति शेयर आय (प्रत्येक रू 5/-) (वार्षिकृत 👘 👘 प्राप्त के 5.5 प्रतिशत की में सुधार और मजबूत वृहद कारकों से
M साकेत कंडोई पुत्र गोती लाल, (चित्तोशो मोटर्स के भागीवार), निवासी वार्ड सं. 12, हिसारिया धर्मशाला संगारिया हनुमानगढ़ के पास, राजस्थान       Image: The contract of th	मकान सं. ५७१बी, कंसल एनक्लेव, मोहाली, साहिबजादा अजीत सिंह नगर/मोहाली/अजीतग	गढ़, 📔 💼 किये।
<ul> <li>भा साकत कडाई पुत्र माता लाल, (म्वताया माटस के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का प्रिंग कि का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवासा के प्रकर के भागवार), मवासा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवसा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवसा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार), मवसा वांड स. 12, हिसाखित का क्षेत्र प्रकर के भागवार के व्यार के भागवार का करने के के क्षेत्र मुंक के क्षेत्र मे प्रकर के के भागवार के क्षेत्र प्रकर के के क्षेत्र मे मार स. 13, हिसाखित का क्षेत्र के के क्षेत्र मे मार स. 14, वार कर के के क्षेत्र मे मार स. 14, वार कर के करता का करने के क्षेत्र के के क्षेत्र के के क्षेत्र वार्य के के क्षेत्र के के क्षेत्र वार्य के क्षेत्र के क्षेत्र वार्य के के के के के करता का करने के क्षेत्र प्रकर के के के के करने कर करता के के करता के के करता कर कर के के करता कर करने कर करता कर कर</li></ul>	पंजाब	
<ul> <li>भाषा रक्ष र प्रदेश स्व ब्रिगंक 01.08.2022 तक बाजरों के पर पर्वप्र स्व प्रिक्त विक्रे प्रार्थ बाजरों के पर प्रदेश स्व ब्रिय विषय जा स्व क्रियों विषय की प्रार्थ वावय आप रक्ष विक्रे प्रार्थ का स्वयक्ता हो विकर्ण दावय आप रक्ष विक्रे प्रार्थ का अवय विवय कि उप में तिमाही के क्रि विकर्ण प्रार्थ का स्वय के प्रार्थ वावय आप रक्ष विकर्ण वावय आप रक्ष वाय या वावय आप रक्ष वाय या वाजर रक्ष वाय वाय रक्ष वाय या वावय आप रक्ष वाय या वाय आप रक्ष वाय या वाजर वाज रक्ष वाय या वाय आप रक्ष वाय या वाज रक्ष वाय या या रक्ष वाय या वाज रक्ष वाय या वाय आप रक्ष वाय या या रव वाज रक्ष वाय या वाय आप रक्ष वाय या वाजर वाज रिंच वाय अध्य या रव वाज रिंच वाय रक्ष रक्ष वाय या या रव वाज रका रिंच विवय राय जा रक्ष वाय या या रव वाज रक्ष वाय या या रिंच वाय रिंच वाय रक्ष वाय या या रव वाज रक्ष वाय या या रव वाज रिंच वाय रव वाज रिंच विय</li></ul>	श्री साकेत कंडोई पुत्र मोती लाल, (चित्तोशो मोटर्स के भागीदार), निवासी वार्ड सं. 12, हिसारि धर्मगाना मंगारिमा वनमानगढ के पास, राजस्वशान	र्षे निहः
<ul> <li>मेर पावा. एवं प्राप्त भारत पर भविष्य का ब्याज और व्ययाँ</li> <li>का पूर्ण प्रत्र बाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर उपलब्ध है।</li> <li>का पूर्ण प्रत्र वाजारें की कोई मी व्यक्ति उपयुक्त नामित निलंबित मागावार (मार्ण पर प्रतं वाजारें की कोई मी व्यक्ति उपयुक्त नामित निलंबित मागावार (मार्ण पर प्रतं के खोंदे वाजार)</li> <li>के वादे के आदेशानुसार कृत जय भारत मार्कक्ति लिमिटेड हत्त्वाण //-</li> <li>एक एम ससीजी बाजार जून पटेल ने कहा, 'कुल मिलाकर, इस तिमाही छोटे आकार के पैकेटों को पसंद कर रहे देनवारों से एक बड़ी राशिक्त प्रातं महत के आर्थ</li> <li>काखा प्रबंध के राह है।</li> <li>एक एम सीजी बाजार जून पटेल ने कहा, 'कुल मिलाकर, इस तिमाही छोटे आकार के पैकेटों के वजन में भी कमी को बढ़ावा</li> <li>क्रियान एस प्रतं प्रबंध निदेशक</li> <li>काखा प्रबंध के राह है।</li> <li>एक प्रतं के राह है।</li> <li>के आर्थ प्रबंध निदेशक</li> <li>काव्य प्रबंध निरेशक</li> <li>काव्य प्रबंध निरेशक</li> <li>काव्य प्रबंध ने तिमाही में यह आंकड़ा 6</li> <li>संबंधित सुधार दिख रहा है।</li> <li>एक प्रतं के उपभोकता पर संद का ध्यान</li> </ul>		
इसलिए जनता के हित में यह सूचित और चेतावनी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति ज्युर्कु नामित निलंबित मागीवार/गारंटर और बंघककर्ता की किसी भी संपत्ति से लेनदेन न करे क्योंकि उपर्युक्त नामत निलंबित मागीवार/गारंटर और बंघककर्ता की किसी भी संपत्ति से लेनदेन न करे क्योंकि उपर्युक्त देनदारों से एक बड़ी राशिवसूली योग्य है। दिनांक : 03.08.2022 स्थान : गुरूग्राम स्थान : गुरूग्राम संयान : गिरूग्राम संयान : स्थान संयान : स्थान संयान : स्थान संयान : स्थान संयान : स्थान संयान : स्थान संयान : स्यान		
निलंबित मागीवार/गारंटर और बंघककर्ता की किसी भी संपत्ति से लेनदेन न करे क्योंकि उपर्युक देनवारों से एक बड़ी राशि क्सूली योग्य है। दिनांक : 03.08.2022 स्थान : गुरूग्राम : गुरूग्रान : गुरूग्रान : गुरूग्राम : गुरूग्रान : गुरूग्रान : गुरूग्रान : गुरूग्रान : गुरूग्रान : गुरूग्राम : गुरूग्रान : गुरूग्राम : गुरूग्रान : गुरूग्राम : गुरूग्राम : गुरूग्रान : गुरूग्रान : गुरूग्रान : गुरूग्रा	इसलिए जनता के हित में यह सचित और चेतावनी दी जाती है कि कोई भी व्यक्ति ज्यर्गक नाप	मित 📗 वर्षशहर www.junigloup.cuning to several s
दनवरो से स्पूर्ण के बड़ा रोश के क्यूं प्रार्थ के क्यूं के क्यूं के क्यूं प्रार्थ के क्यूं प्रार्थ के क्यूं प्रार्थ के क्यूं प्रार्थ के क्यूं प्रारंध निरेशक के प्रारंध निरेशक क्यूं प्रार्थ के क्यूं प्रार्थ के क्यूं के क्यूं क्यूं प्रार्थ के क्यूं क्यूं प्रार्थ के क्यूं त्या निरार्थ के क्यूं के क्यूं के क्यूं	निलंबित भागीदार/गारंटर और बंधककर्ता की किसी भी संपत्ति से लेनदेन न करे क्योंकि उपय	
स्थानः लुधियाना शास्ता प्रबंधक शिक्ष प्रवित्तांकः 2 अगस्त, 2022 अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशंक प्रतिशत था। में सकारात्मक खपत वृद्धि का रुझान बदलती उपभोक्ता पसंद का ध्यान		💶 🛛 👘 किमाही में 10.9 प्रतिशत बढ़ा, जबकि में एफएमसीजी की सभी श्रेणियों में खपत हैं। पैकेटों के वजन में भी कमी को बढ़
े प्रतिशत था। में संकारात्मक खपत वृद्ध की रुझान - बदलती उपभाक्ती पसंद की ध्यान		भाषा विनंक व अपन 2022 अध्यस 2022 अध्यस गर्वे विनेशंक   : जनपरा-माथ रिमिशन पर जापरा वुपारा पुरा पुरा स्वार्थ सामारा माना हो गिनारा जार रिप्टारा
नीलसनआईक्यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दिखा है, और ग्रामीण बाजार भी इनके रखना चाहिए।	र शासा प्रबध	🔟 🔲 म संकारात्मक खपत वृद्धि को रुझान - बदलती उपभाक्ती पसंद को ध्य
		नीलसनआईक्यू ने एक प्रेस विज्ञप्ति में दिखा है, और ग्रामीण बाजार भी इनके रखना चाहिए।

**दिल्ली** संस्करणबिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक नंदन सिंह रावत द्वारा द इंडियन एक्सप्रेस (प्रा) लिमिटेड, ए–8, सेक्टर–7, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर–201301, उ.प्र. से मुद्रित एवं नेहरू हाऊस, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नईदिल्ली से प्रकाशित

संपादक : कैलाश नौटियाल आरएनआई नै. DELHIN/2008/27804 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599

सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टेंडर्ड लिमिटेड, तीसरी और चौथी मंजिल, बिल्डिंग एव, सैरागन सेंटर, सेंचुरी मिल्स के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई 400 013 ईमेल.. subs\_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं